



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख 1934 (श0)
(सं0 पटना 165) पटना, मंगलवार, 24 अप्रील 2012

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

24 अप्रील 2012

सं0 4 (न) नीति-102/2001-1458—चूँकि राज्य सरकार ने नवगठित नगर पंचायत-सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) का आम निर्वाचन, मई, 2012 में कराने का निर्णय लिया है,

और चूँकि उक्त प्रयोजनार्थ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व वार्डों/पार्षदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियत कर अधिसूचित की जानी है,

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पंचायत का आम निर्वाचन, 2012 के लिए निम्नवत् वार्डों/पार्षदों की संख्या नियत की जाती है:—

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	वार्डों/पार्षदों की संख्या
1	2	3
1	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)	15 (पन्द्रह)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 165-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>